

॥ श्री गायत्री चालीसा ॥

.. shrii gaayatrii chaaliisaa ..

sanskritdocuments.org

August 20, 2017

.. shrii gaayatrii chaaliisaa ..

॥ श्री गायत्री चालीसा ॥

Sanskrit Document Information



Text title : shrii gayatri chalisa

File name : gayatrii40.itx

Category : chAlisA, devii, gAyatrI

Location : doc_z_otherlang_hindi

Language : Hindi

Subject : hinduism/religion

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi

Description-comments : Devotional hymn to gayatrii Devi, of 40 verses

Latest update : March 14, 2005

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : <http://sanskritdocuments.org>

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 20, 2017

sanskritdocuments.org

॥ श्री गायत्री चालीसा ॥

हीं श्रीं ह्रीं मेघा प्रभा जीवन ज्योति प्रचण्ड ।
शान्ति कान्ति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखण्ड ॥ १ ॥

जगत जननी मङ्गल करनिं गायत्री सुखधाम ।
प्रणवों सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन काम ॥ २ ॥

भूर्भुवः स्वः ॐ युत जननी ।
गायत्री नित कलिमल दहनी ॥ ३ ॥

अक्षर चौविस परम पुनीता ।
इनमें बसें शास्त्र श्रुति गीता ॥ ४ ॥

शाश्वत सतोगुणी सत रूपा ।
सत्य सनातन सुधा अनूपा ।
हंसारूढ सितंबर धारी ।
स्वर्ण कान्ति शुचि गगन-बिहारी ॥ ५ ॥

पुस्तक पुष्प कमण्डलु माला ।
शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला ॥ ६ ॥

ध्यान धरत पुलकित हित होई ।
सुख उपजत दुःख दुर्मति खोई ॥ ७ ॥

कामधेनु तुम सुर तरु छाया ।
निराकार की अद्भुत माया ॥ ८ ॥

तुम्हरी शरण गहै जो कोई ।
तरै सकल संकट सों सोई ॥ ९ ॥

सरस्वती लक्ष्मी तुम काली ।
दिपै तुम्हारी ज्योति निराली ॥ १० ॥

तुम्हरी महिमा पार न पावैं ।
जो शारद शत मुख गुन गावैं ॥ ११ ॥

चार वेद की मात पुनीता ।
तुम ब्रह्माणी गौरी सीता ॥ १२ ॥

महामन्त्र जितने जग माहीं ।
कोई गायत्री सम नाही ॥ १३ ॥
सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकासै ।
आलस पाप अविद्या नासै ॥ १४ ॥
सृष्टि बीज जग जननि भवानी ।
कालरात्रि वरदा कल्याणी ॥ १५ ॥
ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते ।
तुम सों पावें सुरता तेते ॥ १६ ॥
तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे ।
जननिहिं पुत्र प्राण ते प्यारे ॥ १७ ॥
महिमा अपरम्पार तुम्हारी ।
जय जय जय त्रिपदा भयहारी ॥ १८ ॥
पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना ।
तुम सम अधिक न जगमे आना ॥ १९ ॥
तुमहिं जानि कछु रहै न शेषा ।
तुमहिं पाय कछु रहै न कलेसा ॥ २० ॥
जानत तुमहिं तुमहिं है जाई ।
पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ २१ ॥
तुम्हरी शक्ति दिपै सब ठाई ।
माता तुम सब ठौर समाई ॥ २२ ॥
ग्रह नक्षत्र ब्रह्माण्ड घनेरे ।
सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे ॥ २३ ॥
सकल सृष्टि की प्राण विधाता ।
पालक पोषक नाशक त्राता ॥ २४ ॥
मातेश्वरी दया व्रत धारी ।
तुम सन तरे पातकी भारी ॥ २५ ॥
जापर कृपा तुम्हारी होई ।

तापर कृपा करें सब कोई ॥ २६ ॥
मंद बुद्धि ते बुधि बल पावें ।
रोगी रोग रहित हो जावें ॥ २७ ॥
दरिद्र मिटै कटै सब पीरा ।
नाशै दूःख हरै भव भीरा ॥ २८ ॥
गृह क्लेश चित चिन्ता भारी ।
नासै गायत्री भय हारी ॥ २९ ॥
सन्तति हीन सुसन्तति पावें ।
सुख संपति युत मोद मनावें ॥ ३० ॥
भूत पिशाच सबै भय खावें ।
यम के दूत निकट नहि आवें ॥ ३१ ॥
जे सधवा सुमिरें चित ठाई ।
अछत सुहाग सदा शुबदाई ॥ ३२ ॥
घर वर सुख प्रद लहैं कुमारी ।
विधवा रहें सत्य व्रत धारी ॥ ३३ ॥
जयति जयति जगदंब भवानी ।
तुम सम थोर दयालु न दानी ॥ ३४ ॥
जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे ।
सो साधन को सफल बनावे ॥ ३५ ॥
सुमिरन करे सुरूयि बडभागी ।
लहै मनोरथ गृही विरागी ॥ ३६ ॥
अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता ।
सब समर्थ गायत्री माता ॥ ३७ ॥
ऋषि मुनि यती तपस्वी योगी ।
आरत अर्थी चिन्तित भोगी ॥ ३८ ॥
जो जो शरण तुम्हारी आवें ।
सो सो मन वांछित फल पावें ॥ ३९ ॥

बल बुधि विद्या शील स्वभाओ ।
धन वैभव यश तेज उछाओ ॥ ४० ॥
सकल बढें उपजें सुख नाना ।
जे यह पाठ करै धरि ध्याना ॥
यह चालीसा भक्ति युत पाठ करै जो कोई ।
तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होय ॥

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi

—
.. shrii gaayatrii chaaliisaa ..

Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of Xe_{La}TeX 0.99996
on August 20, 2017

—
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

